



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2012/अग्रहायण 8, 1934

No. 259]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2012/AGRAHAYANA 8, 1934

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

सं. 14-3/69(98)/समन्वय प्रकोष्ठ/स्था.-I.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली 1999 में संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. इन विनियमों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहा जाएगा।
2. ये विनियम सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।
3. वर्तमान विनियम 4(1) को संशोधित किया जाएगा और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:
4. संस्थान की बैठकें:- (1) संस्थान के कामकाज को चलाने के लिए, संस्थान अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझें, उतनी बार संस्थान की बैठकें की जा सकती हैं परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य अधिमानतः अक्टूबर माह में संसद के बजट सत्र से पूर्व सभी वित्तीय एवं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की जाएगी।
4. वर्तमान विनियम 8 (1) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

8. शासी निकाय की बैठक:- (1) शासी निकाय अपने कामकाज को चलाने के लिए अपनी बैठकें, अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक समझें, आयोजित कर सकती हैं लेकिन ये बैठकें सामान्यतः वर्ष में कम-से-कम तीन बार अधिमानतः जनवरी, मई तथा सितम्बर में आयोजित की जाएंगी।
5. वर्तमान विनियम 8 का उप-विनियम (6) निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:
- (6) 5 सदस्य कोरम बनाएंगे। अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सदस्य बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं और विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई ऐसी सहभागिता की कोरम के उद्देश्य से गणना की जाएगी।
6. विनियम 12 में, उप-विनियम (5) के बाद एक नया उप-विनियम (6) निम्नानुसार सम्मिलित किया जाएगा:
- सभी स्थायी समितियों हेतु 50% सदस्यों द्वारा कोरम बनाया जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सदस्यगण बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी भाग ले सकते हैं और विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई ऐसी सहभागिता की कोरम के उद्देश्य से गणना की जाएगी। स्थायी चयन समिति के मामले में, दो विशेषज्ञों की भी कोरम का निर्धारण करने हेतु गणना की जाएगी।
7. विनियम 15 के उपरांत एक नया विनियम 15क निम्नानुसार सम्मिलित किया जाएगा:
- 15 क संकायाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया:- (1) निदेशक के साथ विचार-विमर्श करते हुए वरिष्ठता को विचार में लेते हुए संस्थान द्वारा संकायाध्यक्ष के रूप में एक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
- (2) संकायाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों हेतु होगा।

संस्थान के प्राधिकार द्वारा,  
डॉ. आर. सी. डेका, निदेशक  
[विज्ञापन III/4/151/12/असा.]

**टिप्पणी.—** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मूल विनियमावली वर्ष 1999 में दिनांक 25 फरवरी, 1999 की अधिसूचना फा.सं. 14-3/69/99-स्था.। के द्वारा जारी की गई थी और आगे निम्नानुसार संशोधन हुए:

- (i) अधिसूचना फा.सं. 14-3/69-स्था.।। दिनांक 7 जून, 2003
- (ii) अधिसूचना फा.सं. 14-3/69/99-स्था.। दिनांक 2 दिसम्बर, 2009
- (iii) अधिसूचना फा.सं. 14-3/69/(98)-स्था.। दिनांक 19 मई, 2011

**ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2012

**No. 14-3/69(98)/Coordination Cell/Estt. I.—**In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (I) (a) of Section 29 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All India Institute of Medical Sciences, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All India Institute of Medical Sciences, Regulations 1999, namely:-

1. These Regulations may be called the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 2012
2. They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. The existing Regulation 4(1) shall be amended to read as follows:-
4. Meetings of the Institute:- (1) The Institute may meet as often as may be considered necessary by the President for the transaction of the business of the Institute but shall meet at least once a year preferably in the month of October to finalize all budgetary and plan proposals before the Budget Session of the Parliament.

4. The existing Regulation 8(1) shall be amended as follows:-

**8. Meeting of the Governing Body :- (1) The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chairman for transaction of its business, but shall ordinarily meet at least thrice a year preferably in the months of January, May and September.**

5. The existing sub regulation (6) of regulation 8 shall be amended as follows:

**(6) 5 members shall form the quorum. Members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum.**

6. In regulation 12, a new sub regulation (6) shall be inserted after sub regulation (5) as follows

**50% of the members shall form the quorum for all Standing Committees. Members can also participate in the meeting through video conference, after obtaining the prior approval of the Chairman and such participation through video conference will be counted for the purpose of the quorum. In the case of Standing Selection Committee, the two experts would also be counted for purpose of determining the quorum.**

7. A new regulation 15A shall be inserted after Regulation 15 as follows

**15 A Procedure for appointment of Dean:- (1) A Professor and Head of the Department would be appointed as Dean by the Institute taking into consideration seniority in consultation with the Director.**

**(2) The tenure of the Dean would be maximum upto three years.**

By the authority of the Institute,

Dr. R. C. DEKA, Director

[ADVT. III/4/151/12/Exty.]

**Note.—** *The Principal Regulations of All India Institute of Medical Sciences was issued in 1999 vide notification F. No. 14-3/69/99-Estt.I dated 25<sup>th</sup> February, 1999 and amended further by:*

- (I) *Notification F.No. 14-3/69-Estt.II dated 7<sup>th</sup> June, 2003*
- (II) *Notification F. No. 14-3/69/99-Estt.I dated 2<sup>nd</sup> December, 2009*
- (III) *Notification F.No. 14-3/69(98)-Estt.I dated 19<sup>th</sup> May, 2011*

4436 G/12-2